



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-31122024-259729
CG-MH-E-31122024-259729

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5196]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2024/पौष 6, 1946

No. 5196]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 2024/PAUSHA 6, 1946

रेल मंत्रालय

(पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 24 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5616(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 (क) की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के रेल मंत्रालय (पश्चिम रेलवे) की अधिसूचना संख्या का. आ. 4789 (ई), तारीख 24 अक्टूबर, 2024 द्वारा जारी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 04 नवम्बर, 2024 में प्रकाशित अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, महाराष्ट्र राज्य में मुंबई शहर परिवहन परियोजना – III के अंतर्गत विरार – डहाणू रोड स्थानकों के दरम्यान तीसरी एवं चौथी रेलवे लाइन के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों, अर्थात्, “दि फ्री प्रेस जर्नल” (अंग्रेजी), तारीख 10 नवम्बर, 2024 और “लोकमत” (मराठी) तारीख 10 नवम्बर, 2024 को प्रकाशित किया गया था; और, सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं किए गए थे;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जायेगी;

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जायेगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में मुंबई शहर परिवहन परियोजना – III के अंतर्गत विरार – डहाणू रोड स्थानकों के दरम्यान तीसरी एवं चौथी रेलवे लाइन की विशेष रेल परियोजना हेतु पालघर तालुका, जिला पालघर में अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	गट संख्या (सर्वे संख्या)	तहसील	जिला	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	संपादित क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सरतोडी	3/10	पालघर	पालघर	नवीन शर्त	कृषि	0.07.60	सिता पांडू लंहागे गणपत पांडू लंहागे

[इ ऑफिस फा. सं. E-25840-17]

पवन कुमार सिंह, मुख्य इंजीनियर (निर्माण) I

MINISTRY OF RAILWAYS

(Western Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 24th December, 2024

S.O. 5616(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Western Railway), number S.O. 4789 (E), dated 24th October, 2024 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 4th November, 2024 and issued under the sub-section(1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of a Special Railway Project namely, Quadrupling of Virar-Dahanu Corridor on Western Railway, of MUTP III Projects in the district of Palghar in the State of Maharashtra;

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers namely, “The Free Press Journal” (English), dated the 10th November, 2024 and “Lokmat” (Marathi) dated the 10th November, 2024 under the sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Central Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section(2) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, Quadrupling of Virar-Dahanu Corridor on Western Railway, of MUTP III Projects in Palghar Taluka, District Palghar in the State of Maharashtra.

Sr. No.	Name of Village	Tehsil	District	Survey Number/Gut Number	Type of Land	Nature of land	Area in Hectare	Name of Land Owner/Interested Persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sartodi	Palghar	Palghar	3/10	Private New Tenure	Agriculture	0.07.60	Sita Padu Lahage Ganapat Padu Lahage

[E office F. No. E-25840-17]

PAWAN KUMAR SINGH, Chief Engineer (Construction) I